



## प्रेस नोट थाना गोविन्द नगर जनपद कानपुर नगर

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर नगर के द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर दक्षिण के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी गोविन्द नगर के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोविन्दनगर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम वांछित अपराधी व अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में दिनांक 31.01.2021 को फैक्ट्री एरिया क्षेत्र से कुछ ठगी करने वाले शातिर पकड़े गये थे जो Amazon कम्पनी के आनलाइन मंगाये जाने वाले सामान को बदलकर नकली सामान जैसे मोबाइल की जगह साबुन की बट्टी पंखा की जगह पुराना पंखा या बिजली का बोर्ड डिलीवर कर उक्त नकली सामान को कम्पनी को वापस कराकर खाते में रुपये रिफण्ड करा लेते थे तथा जो असली सामान कम्पनी भेजती थी उसे भी बाजार में बेच देते थे इस गैंग में जीएनआरएल कम्पनी के तीन डिलेवरी ब्याय एक अमेजोन कम्पनी का स्टेशन सपोर्ट एसोसिएट तथा एक एसआरसीबी कम्पनी का सुपरवाइजर जो फ्रेश माल को अपने साठ गाँठ वाले डिलेवरी ब्याय को देकर फर्जी नाम पते पर डिलेवर कराता था जो कि किसी इनके जान पहचाने वाले होते थे तथा ये फर्जी नाम पते वाले लोग एक दो दिन बाद पिकअप अर्थात् माल वापस करने की कम्पलेन्ट कर देते थे तथा कम्पनी एसी शिकायत पर तत्काल ही पैसा रिफण्ड कर देती थी जबकि पिकअप वाले की जिम्मेदारी है कि सामान वापसी के समय सामान की जाँच कर वापस लेगा कि यह वही सामान है जो डिलेवर किया गया था परन्तु इन लोगो द्वारा कम्पनी के ही कुछ अन्य वरिष्ठ कर्मियों से साँठ गाँठ कर खराब माल को ही लेकर कम्पनी में वापस कर देते थे इस कार्य में इनको बाजार में विके हुये माल का 10 प्रतिशत मिलता था इनके द्वारा भारी मात्रा में आईफोन व अन्य महँगे मोबाइल तथा जूसर मिक्सर पंखे गीजर बिजली के तार घड़ियाँ इत्यादि महँगे सामान मंगाकर तथा पिकअप के समय पुराना कबाड सामान रखकर कम्पनी को धोखाधड़ी व आपस में मिली भगत करके वापस करके कम्पनी को आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है जो कि करीब 03 करोड़ रुपये की है इसी तरह की ठगी कर कम्पनी को नुकसान पहुँचा कर अबैध धन अर्जित करते थे जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 046/2021 धारा 420 भादवि पंजीकृत है इस कार्य में कम्पनी के लोग सलिस है इसी क्रम में आज दिनांक 04.02.2021 को पाँच शातिर ठग गिरफ्तार किये गये हैं जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अमेजोन कम्पनी का आनलाइन मंगाया गया सामान बरामद हुआ है यह वही सामान है जिसके बदले में नकली सामान पैक कर अमेजोन कम्पनी को भेजकर धोखाधड़ी व आर्थिक क्षति पहुँचायी गयी है जिसके सम्बंध में

उपरोक्त अभियोग मे धारा 120 बी / 411 भादवि की बढोत्तरी कर अभियुक्तगणो की गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### नाम पता अभियुक्तगण –

1. राहुल कोस्टा पुत्र चन्द्रभान कोस्टा (उम्र-28 वर्ष) नि0 म0नं0 210 मिर्जामण्डी काल्पी थाना काल्पी जनपद जालौन। (जियो मोबाइल व सिम उपलब्ध कराने वाला )



2. प्रदीप गुप्ता पुत्र हरीशंकर गुप्ता (उम्र-42 वर्ष) नि0 कागजीपुरा मोहल्ला थाना काल्पी जनपद जालौन। (माल बरामद हुआ इलेक्ट्रोनिक दुकान है मंजीत से सामान लेते थे )



3. अनुराग विश्वाई पुत्र स्व0 अमरचन्द्र विश्वाई (उम्र-41 वर्ष) नि0 9 के इन्द्रानगर काल्पी थाना काल्पी जनपद जालौन। (माल बरामद हुआ इलेक्ट्रोनिक दुकान है मंजीत से सामान लेते थे)



4. मंजीत गुप्ता पुत्र श्याम कृष्ण गुप्ता (उम्र-28 वर्ष) नि0 म0नं0 154 गनेरागंज थाना काल्पी जनपद जालौन। (माल बरामद हुआ इलेक्ट्रोनिक दुकान है)



5. कपिल सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह (उम्र-26 वर्ष) नि0 राँवगंज थाना काल्पी जनपद जालौन । (माल बरामद हुआ इलेक्ट्रॉनिक दुकान है मंजीत से सामान लेते थे)



### आपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं.046/2021 धारा 420/120बी/411 भादवि थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।

### माल बरामदगी-

1. 208 अदद विभिन्न कम्पनियों के घरेलू उपकरण जैसे सीलिंग फेन ,टेबल फेन, गीजर ,रूम हीटर ,ब्लोअर ,स्पीकर,जूसर मिक्सर ग्राइण्डर ,मिक्सी, यह समस्त उपकरण हैबल्स कम्पनी के फैन ,सुजाता कम्पनी के जूसर मिक्सर ग्राइण्डर ,बजाज व ऊषा कम्पनी के रूम हीटर व ब्लोअर तथा जैब्रानिक्स कम्पनी के स्पीकर ( बरामद सामान की अनुमानित कीमत 07 लाख रूपये है )
2. विभिन्न कम्पनियों के 07 एक्टिवेटेड सिम व मोबाइल जियो व वोडाफोन कम्पनी के
3. एक अदद कार यूपी 77 डब्लू 9129 हुण्डाई एक्सेन्ट
4. सात अदद आधार कार्ड ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्र0नि0 श्री अनुराग मिश्र थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।
2. उ0नि0 श्री राम सिंह चौकी प्रभारी फैक्ट्री एरिया थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।
3. उ0नि0 श्री सैय्यद जुबैर शरीफ थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।
4. का0 2913 अनुराग थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।
5. का0 1766 सुजीत कुमार थाना गोविन्द नगर कानपुर नगर ।
6. का0 3867 दिगविजय सिंह स्वाट टीम दक्षिण कानपुर नगर ।
7. हे0का0 1768 पवन यादव स्वाट टीम दक्षिण कानपुर नगर ।
8. का0 4331 अमित कुमार स्वाट टीम दक्षिण कानपुर नगर ।
9. का0 3367 जितेन्द्र गर्ग स्वाट टीम दक्षिण कानपुर नगर ।

- 10.का0 4356 दिलीप कुमार स्वाट टीम दक्षिण कानपुर नगर ।
11. का0 4059 नवीन कुमार स्वाट टीम दक्षिण कानपुर नगर ।
- 12.का0 431 देवांश सिरोही स्वाट टीम दक्षिण कानपुर नगर ।